



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 40 पटना, बुधवार, 9 आश्विन, 1930(श0)
1 अक्तूबर, 2008(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-4—बिहार अधिनियम ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	2 भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डिप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकि है। ---
भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-क—वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं ---
	3-5 भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं, और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
	पूरक ---
	--- पूरक-क ---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई 2008

संख्या-सह. 2/ राज (स्था.) -17/08 3150 / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 14/प्रो.- 105/07 का 4131 दिनांक 15.04.2008 के आलोक में श्री उमेश चन्द्र शर्मा (बि.प्र.से.) ने संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 21.04.08 के पूर्वाह्न में योगदान दिया है। उनके योगदान को स्वीकार करते हुए वाह्य सेवा शर्तों पर प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार पाण्डेय,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट 28-571+25-डी0टी0पी0।

भाग—2

बिहार—राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

संख्या 1/निग.को. (राज.) 57/07-3792

सहकारिता विभाग

संकल्प

10 सितम्बर, 2008

श्री सतीश कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, औरंगाबाद केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि., औरंगाबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 74 दिनांक 14.01.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम तथा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार, प्रमाणित आरोप संख्या 2 एवं 3 के आधार पर श्री सिंह को विभागीय संकल्प संख्या 2057 दिनांक 20.06.07 के द्वारा “निन्दन” की सजा देने का निर्णय लिया गया जिसकी प्रविष्टि उनके वर्ष 2003-04 की चारित्री में की जायेगी।

2. इस संकल्प आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु श्री सिंह का अभ्यावेदन दिनांक 15.01.08 विभाग को प्राप्त हुआ जिसकी पुनर्समीक्षा की गयी। पुनर्विचार अभ्यावेदन में इनका कहना है कि अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया है अपुति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के पत्र के आलोक में इनके द्वारा अस्थायी अग्रिम का भुगतान किया गया है। अवैध रूप से नियुक्त कर्मिकों के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में इनका कहना है कि इन कर्मिकों की नियुक्ति की वैधानिकता की जाँच निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निदेशानुसार संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सौंपा गया था। दोनों पदाधिकारी इनसे वरीय रहने के कारण इनकी जाँच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इन पदाधिकारियों के जाँच-प्रतिवेदन के आलोक में जब इस तरह का निदेश उन्हें प्राप्त हुआ था तो बिना किसी विलम्ब के इनका अनुपालन इनके द्वारा किया गया। श्री सिंह का यह भी कहना है कि प्रबंध निदेशक के दायित्वों का इनके द्वारा सही ढंग से निर्वहन किया गया है जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है।

श्री सिंह ने बर्खास्त किये गये कर्मिकों द्वारा अपने सेवा बर्खास्तगी एवं वेतन भुगतान से संबंधित जो याचिका माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया था, उसके आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहा है कि इन कर्मिकों के कार्यअवधि के वेतन भुगतान को न्यायोचित ठहराते हुए, इसे निश्चित समयावधि के अन्तर्गत निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि पुनर्विचार-अभ्यावेदन में उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के क्रम में कही गयी है।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने हेतु अपने स्तर से क्या कार्रवाई की गयी और निबंधक, को इस आशय का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया, इस बिन्दु पर कोई प्रकाश श्री

सिंह द्वारा नहीं डाला गया है। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया अथवा जिलाधिकारी द्वारा की जा रही कार्रवाई के आलोक में, श्री सिंह को अपने स्तर से कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं थी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त कार्मियों को अस्थायी अग्रिम का भुगतान करने का आदेश निर्गत करने के आधार पर, इनके अग्रिम भुगतान संबंधी अनियमित कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत, श्री सिंह के पुनर्विचार संबंधी अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प संख्या— 2057 दिनांक 20.06.07 में निहित आदेश को यथावत रखते हुए श्री सिंह को दी गयी “ निन्दन” की सजा को राज्य सरकार पूर्ववत रखती है जिसकी प्रविष्टि श्री सिंह की वर्ष 2003—04 की चारित्री में की जायेगी। इसके साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

देवकान्त दिवाकर,

सरकार के उप सचिव—सह—

मुख्य निगरानी पदाधिकारी

संख्या 6/गो 34-01/2008- 3404

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2008

शुद्धि पत्र

वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अल्प संशोधन किया जाता है :—

1. अधिसूचना संख्या—2740 दिनांक 30.06.08 के शब्द समूह “अन्वेषण—ब्यूरो, मुजफ्फरपुर, प्रमंडल, मुजफ्फरपुर” के स्थान पर “अन्वेषण—ब्यूरो, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर” पढ़ा जाय।
2. अधिसूचना संख्या—2758 दिनांक 30.06.08 में “पटना पश्चिमी अंचल” के स्थान पर “पटना गाँधीमैदान” पढ़ा जाय।
3. अधिसूचना संख्या—2760 दिनांक 30.06.08 में “पटना पश्चिमी अंचल” के स्थान पर “पटना मध्य अंचल” पढ़ा जाय।
4. अधिसूचना संख्या—2762 दिनांक 30.06.08 में “पटना पश्चिमी अंचल” के स्थान पर “पटना मध्य अंचल” पढ़ा जाय।
5. अधिसूचना संख्या—2830 दिनांक 30.06.08 में “श्री मनिन्द कुमार” के स्थान पर “श्री मणिन्द्र कुमार” पढ़ा जाय।
6. अधिसूचना संख्या—2834 दिनांक 30.06.08 में “श्री राज किशोर प्रसाद” के स्थान पर “श्री राज किशोर साह” पढ़ा जाय।
7. अधिसूचना संख्या—2861 दिनांक 30.06.08 में “श्री मरकेश्वर शर्मा” के स्थान पर “श्री मकेश्वर शर्मा” पढ़ा जाय।
8. अधिसूचना संख्या—2895 दिनांक 30.06.08 को विलोपित किया जाता है।
9. अधिसूचना संख्या—296 के स्थान पर “2916” पढ़ा जाय।
10. अधिसूचना संख्या—2920 दि 30.06.08 में “वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त” के स्थान पर “वाणिज्य—कर पदाधिकारी” पढ़ा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लाल बाबू गुप्ता)

सरकार के अवर सचिव,

बिहार, पटना।

संख्या—6वि0पत्रा0—24—46/2005—3691

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त 2008

विभागीय अधिसूचना संख्या—5809 दिनांक—31.12.07 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य—कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए दिनांक—01.08.08 के प्रभाव से

श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

कार्यालय का नाम

1. वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय)
2. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल
3. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
4. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
5. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
6. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
7. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
8. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
9. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
10. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
11. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
12. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा
13. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
14. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया
15. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट 28-571+25-डी0टी0पी0।